

February 11, 2022

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
25th Floor, P.J Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 539199

Sub: Newspaper Advertisement Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed herewith **Copy of Newspaper advertisement** of the Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2021 publish in 'Jansatta' (Hindi) & 'Financial Express' (English) dated February 11, 2022.

Kindly take the same on record and acknowledge.

Thanking you,

For Moongipa Securities Limited

Sanjeev Jain

Company Secretary and Compliance Officer

E-mail: moongipas@gmail.com, Website: www.moongipa.net

FINANCIAL EXPRESS

Noticee No.2

#### HE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29,Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058,

Phone: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044 agal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com, Website : www.kangrabank.com

Noticee No.1 Smt. Uma Devi, W/o. Late Sh.Kamal Kishore, R/o.A-171, Bharat Vihar, Kakrola, Delhi-110078. (Legal Heir of Borrower & Mortgagor Late Sh.Kamal Kishore)

Smt. Uma Devi, W/o. Late Sh.Kamal Kishore, R/o.A-171, Bharat Vihar, Kakrola, Delhi-110078. (Mortgagor) Noticee No.3

Sh. Rajeshwar Dutt, S/o. Late Sh.Kamal Kishore, R/o. A-171, Bharat Vihar, Kakrola, Delhi-110078. (Legal Heir of Borrower & Mortgagor Late Sh. Kamal Kishore) Sh. Vikas Dutt, S/o. Late Sh.Kamal Kishore, C/o. Smt. Uma Devi, A-171, Bharat Vihar, Kakrola,

Delhi-110078. (Legal Heir of Borrower & Mortgagor Late Sh.Kamal Kishore ) Noticee No.5 Seema Dutt, D/o. Late Sh.Kamal Kishore, C/o. Smt. Uma Devi, A-171, Bharat Vihar, Kakrola,

Delhi-110078. (Legal Heir of Borrower & Mortgagor Late Sh.Kamal Kishore ) SUB: DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) READ WITH RULE 3 ( 1 ) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF

SECURITY INTEREST ACT AND RULES, 2002.4 , Harish Sharma, Authorised Officer, of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", Head office at C-29 Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi- 110058, having its registered office at 1916, Chuna

Mandi, Pahar Ganj, New Delhi, and amongst others it has one of its branch office at WZ-C-21-22, Ground Floor, Pocket-A, Near Kakrola Mor, Patel Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059, do hereby serve upon you with the following notice under the provisions of Section 13(2) read with rule 3 (1) of the above mentioned Act. 1. That the borrower Late Sh.Kamal Kishore S/o. Sh. Maheshwar Dutt was a member of "The Kangra Cooperative Bank Ltd." having Membership No. 59028 and Membership account no.UN/1/121. **2.** That on the request of the Borrower Late Sh. Kamal Kishore S/o. Sh. Maheshwar **a Secured Loan Housing** 

UN/1/121, being maintained at our Uttan Nagar Branch. 3.That, in compliance of the terms of granting the above mentioned Secured loan facilities to Late Sh.Kamal Kishore S/o. Sh.Maheshwar Dutt. you the Noticee No. 1 & 2, who is also a nominal member of our Uttam Nagar Branch having nominal membership no.00100190000002 and nominal membership account no.1230, Late Sh.Kamal Kishore and Noticee No. 1 & 2 both had also mortgaged their Property Namely : DDA LIG FLAT NO.3, GROUND FLOOR, BLOCK C-9, SECTOR G-8, POCKET-3, AREA MEASURING 33.25

SQ. METER, SITUATED AT NARELA, DELHI-110040. As security in the above mentioned Secured Loan

amounting to Rs.12,00,000/- (Rupees Twelve Lakhs Only), and Secured Loan General amounting to

Rs.3,00,000/- (Rupees Three Lakhs Only) were sanctioned to him in his Membership Account No.

facilities being sanctioned to Late Sh. Kamal Kishore S/o. Sh. Maheshwar Dutt. 4. That since the borrower & Mortgagor Late Sh.Kamal Kishore S/o. Sh.Maheshwar Dutt had expired on dated 20-05-2021 and therfore this Demand Notice is being issued to the surviving Legal heirs of the borrower & Mortgagor Late Sh. Kamal Kishore S/o. Sh. Maheshwar Dutt, from noticees no. 1 to 5, wherein noticees no. 1 to 3 are being served in their residential address namely A-171, Bharat Vihar, Kakrola, Delhi-110078, and the noticees no.4 & 5 are being served through thier mother and noticee no.1 & 2 at her residential address namely A-171, Bharat Vihar, Kakrola, Delhi-110078 because the wife of the borrower and mortgagor Late Sh. Kamal Kishore S/o. Sh. Maheshwar Dutt did not co-operated with the Bank officials and concealed the information of providing the latest available addresses of the noticees no. 4 & 5 during the course of

personal verification by the Bank officials for the same, and as per the information and records available in

5. That due to the failure on part of the borrower Late Sh.Kamal Kishore S/o. Sh.Maheshwar Dutt in properly operating the above mentioned accounts, they became overdrawn accounts and continued to remain overdrawn due to which the same were declared Non Performing Assets on dated 11-08-2021 for an amount of Rs.13,56,875/- as per our Bank's record and are still continuing to remain N.P.A. accounts till the date of this Demand Notice.

5. That, on several occasions our Bank officials have contacted you the noticees and had also intimated/informed you about the deteriorating condition in the above mentioned accounts, due to which further proceedings that could be initiated shortly against you under various provisions of the Law, and the consequences that you could later on face under such Legal Proceedings.

. That despite of having knowledge about the deteriorating condition in the above mentioned accounts subsequent to which further Legal proceedings that could be initiated shortly against you, you the Noticees have failed to make satisfactory/sufficient payments towards the above mentioned accounts, as a result of which the following amounts including interest is due from the above mentioned secured loans as on 31-10-2021.

Debit balance in your, Secured Loan Business a/c.: (Including Intt.) Debit balance in your, Secured Loan General a/c.:

Rs.10,87,990.00 Rs. 3,02,187.00

Yours Faithfully

(HARISH SHARMA)

**AUTHORISED OFFICER** 

for information and necessary action as you

are also the sureties and thus jointly and

severally responsible for repayment of

the dues of Late Sh. Kamal Kishore

S/o Sh. Maheshwar Dutt

(Including Intt.) TOTAL

8. That since you the Noticees have failed to make satisfactory payments towards the above mentioned loan accounts, as mentioned here in above despite all our efforts and in view of the facts that these Loan accounts have already been declared Non Performing Assets, it has been decided to invoke the provisions of the Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, for recovery of the above amounts by disposing off the mortgaged property as mentioned in Para 3 above which is being mortgaged with us. . That you the Noticees are therefore called upon to make the full payment towards discharge of the liabilities

of Rs.13,90,177/- as mentioned above together with further interest, Penal interest and other charges as are applicable in the above mentioned loan account from time to time from 31-10-2021 till the date of payment, with in the mandatory period of 60 days, from the date of receipt of this notice failing which the bank would have no other option but to proceed under the provision of Section 13 (4) and 14 of the Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with Rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, for taking possession and disposal (selling of) the above mentioned mortgaged property for recovery of the above mentioned amount.

10. That you the Noticees are also being intimated/informed about invoking the provisions of section 13 subsection (10) read with rule 11 of the aforesaid Act, for the purposes of recovery of shortfall of secured 1. Please take note that as per section 13 (13) of the aforesaid Act, after receipt of this Notice, you the

Noticees are restrained from transferring by way of sale, lease or otherwise any of the Secured Assets referred to in this Notice, without prior written consent of the Bank. 2. The Noticees attention is also been invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 read with rule

3 (5) of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the above mentioned secured asset.

13. Needless to mention that this Notice is addressed to you the Noticees without prejudice to any other Please note that a copy of this notice is retained in the Bank for reference and further action.

Smt.Uma Rani A-271, Bharat Vihar, Near Shiv Mandir, Sh. Raghuvir Singh, Som Bazar Chowk, Kakrola New Delhi-110078

R/o. C-134-A, Vikas Vihar, Kakrola, New Delhi Also at:

Sh.Raghuvir Singh, S/o. Bishan Singh, C/o. M/s Vikas Enterprises, G-32, Kiran Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059. Sh.Shashi Kumar,

S/o. Late Sh.Faqir Chand, R/o. D-1, Bhagwati Garden Extn.Mohan Garden West, Uttam Nagar, New Delhi-110059

Sh.Shashi Kumar, S/o. Fagir Chand,

SDMC, Education Department, Najafgarh, New Delhi-110043.

Date: 10.02.2022

Place: New Delhi

financialexp.epapr.in

(HARISH SHARMA) **AUTHORISED OFFICER** 

# "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

#### KERALA STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION Transport Bhavan, Fort P.O, Thiruvananthapuram-695023 **E-TENDER NOTICE** Name of Item e-Tender ID submission 10.00x20-16 PR Radial Tyre 2022\_KSRTC\_470220\_1 with Tubes and Flaps. 06.00 PM Tubeless Tyres 295/80 R 24.02.2022 2022 KSRTC 473457 1 22.5 Laminated Front Wind Shield 06.00 PM 2022\_KSRTC\_465137\_1 Glass P 6000 Model 19.02.2022 Adhesive Retro 2022\_KSRTC\_470046\_1 Reflective Tape White Adhesive Retro 06.00 PM 2022\_KSRTC\_470022\_1 22.02.2022 Reflective Tape Yellow Self Adhesive Retro 2022\_KSRTC\_470052\_1 Reflective Tape Red M.S. Electrode 3.15 x 350 06.00 PM 2022\_KSRTC\_470200\_1 21.02.2022 mm \_10 Gauge Dot Matrix Printer (136 06.00 PM 2022\_KSRTC\_470067\_1 19.02.2022 Coloumn) Computer Paper 80 Coloumn 06.00 PM 2022\_KSRTC\_470195\_1 23.02.2022

For the detailed tender document visit: **Chairman & Managing Director** www.etenders.kerala.gov.in, www.keralartc.com/tenders/purchase, e-mail: sr@kerala.gov.in 10.02.2022

#### M/s TRIPURARI AGRO PRIVATE LIMITED (in Liquidation) Liquidator's Address: K-208, Kismat Complex, Miller Ganj, G.T. Road Ludhiana-141003, Punjab, India. E-mail: rp.tripurariagro@gmail.com

E-AUCTION SALE NOTICE (Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) The following Assets and properties of M/s Tripurari Agro Private Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate are for sale by the

Date and Time of Auction		Saturday, 03.03.2022, Between 04:00 PM to 5:00 PM (With unlimited extension of 5 mins each)							
Last Date for Submission of EMD Inspection Date & Time Details of Assets		Thursday, 01.0	3.2022 before 5:00 PM						
		On or before Ti	On or before Thursday, 01.03.2022 From 11:00 AM to 4:00 PM						
		Block	Reserve Price (in Rupees)	Earnest Money deposit (in Rupees)					
<b>Building and other Civil Construction</b>		Block-1	66,00,000/- Plus GST as applicable	6,50,000/-					
The EMD (Refundable	shall he navahle	by interpeted his	dder through NEFT/RTGS/Demand Draft on	we had no fit no noon in Book seement					
	y andir ue payaure	dy interested of	oder biroogn wcr i/N1G3/Deliland Dian on	or before 01,03.2022 in bank account					
	4451002100		oder biroogii NCF1/K1G3/Delilalio Diali oli	or before 01,03.2022 in Bank account					
mentioned below.	4451002100			or before 01,03.2022 in Bank account					
mentioned below. Account Number	4451002100	002443 o Private Limited		or before 01,03.2022 in Bank account					
mentioned below. Account Number Beneficiary Name	4451002100 "TripurariAgn Punjab Natio	002443 o Private Limited nal Bank		or before 01.03.2022 in Bank account					

(1) The terms and conditions of e auction and other details of assets are uploaded at the website https://www.bankauctions.in. (2) E-Auction

will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" only without any obligation whatsoever on the

liquidator subsequent to sale. (3) The Liquidator has right to accept or cancel or extend or modify etc. any terms and conditions of E-Auction

at any time. He has right to reject any of the bid without giving any reasons. For any query regarding E-Auction, Contact Mr. U. Subbarao, Phone No. 8142000061, Email: subbarao@bankauctions.in or Liquidator. Interested bidders are requested to visit the above-mentioned websites and submit a bid.

Rajesh Kumar Loomba

Liquidator, in the matter of Tripurari Agro Private Limited (in Liquidation)

Registration Number: IB8I/IPA-002/IP-N00170/2017-2018/10440 Phone: 9216510901, Email: rp.tripurariagro@gmail.com

NB: Land measuring 5.93 Acre (47 Kanal 9.5 Marla situated at Village Bazidpur, Dist. Nawa Shahar on which this Building and other Civil Construction is erected, is also available. Sale of this land will be put on auction by Punjab National Bank. Interested Buyer may coordinate with the Liquidator and/or Punjab National Bank for purchase of Land along with Building and other Civil Construction. Buyers who are interested in both properties will be given preference.

#### ASIA PACK LIMITED REGISTERED OFFICE: 3RD FLOOR, MIRAJ CAMPUS, UPER KI ODEN, NATHOWARA, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA, PIN-313301

CIN: L74950RJ1985PLC003275 Tel.: 1800 120 3699, Email Id: ankita.mata@mirajgroup.in, Website: www.asiapackltd.com Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2021

	Rs. in La						
Particulars		Quarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended	
	Dec-21	Sep-21	Dec-20	Dec-21	Dec-20	Mar-21	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
Total Income from Operations	2.70	1.20	2.55	3.90	7.50	14.55	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items	11.20	5.20	6.39	16.40	25.75	17.04	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11.20	5.20	6.39	16.40	25.75	17.04	
Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7.52	3.73	4.27	11.25	17.01	9.80	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	8.10	3.33	4.27	11.43	17.08	9.91	
Equity Share Capital	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	8.50	8:	200	7.5	1.5%	1603.07	
Earnings per Share (EPS) (of Rs 10/- each)							
Basic	0.29	0.14	0.16	0.43	0.64	0.37	
Diluted	0.29	0.14	0.16	0.43	0.64	0.37	
Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarte	erly / Nin	e Monthl	y Financia	al Results	filed with	the Stock	

Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites viz. www.bseindia.com and on the Company's website viz. www.asiapackltd.com The above Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2021 have been

reviewed by Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on 10th February, 2022. For Asia Pack Limited **PUSHPENDRA JAIN** 

Date: 10-02-2022 Director/CFO Place: Nathdwara DIN:03228950

### **A.K. SPINTEX LIMITED**

Regd. Office:-14 K.M. STONE, CHITTOR ROAD, BILIYA-KALAN, BHILWARA-311001 (RAJ.) Ph: 9887049006, 9929139002 Email:-akspintex@gmail.com: Website:-www.akspintex.com (CIN: L17117RJ1994PLC008916) Unaudited Financial Result for the Quarter and 9 Month ended December 31, 2021 (Rs. In lacs)

Particulars	Quarter Ended 31.12.2021	Quarter Ended 31.12.2020	Year Ended 31.03.2021
	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations (net)	2295.86	1695.98	4799.95
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	91.25	86.73	45.71
Net Profit / (Loss) for the period after tax	200000000000000000000000000000000000000	294/10034-001940	
(after Extraordinary items)	91.25	86.73	45.71
Equity Share Capital	503.17	503.17	503.17
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) Earnings Per Share (before extraordinary items)			2139.29
(of Rs.10/- each) Basic & Diluted (In Rs.) Earnings Per Share (after extraordinary items)	1.81	1.72	0.91
(of Rs.10/- each) Basic & Diluted (In Rs.)	1.81	1.72	0.91

Notes: The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the guarter and 9 Month ended 31st December, 2021 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats on Financial Results are available on the Stock Exchange websites of BSE at www.bseindia.com and company's website at www.akspintex.com. For and on behalf of Board of Directors For A.K. SPINTEX LIMITED

Date: 10.02.2022 Place: Bhilwara

(Prakash Chand Chhabra) Managing Director (DIN: 00155631)

(Rs. In Lakh except FDS data)

### **TRITON CORP LIMITED**

CIN:L74899DL1990PLC039989 Regd. Office: R-4, Unit No-102, Ist Floor, Khirki Extension Main Road, Malviya Nagar, New Delhi-110017, Email: cs@tritoncorp.in, Phone: 011-49096562

**UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31,2021** 

									۱)	ks. In Lakn exce	ept EPS data)
		STAND	ALONE			CONSOLIDATED					
Quarter Ended		Nine Mon	Nine Months Ended Year Ended		Quarter Ended			Nine Mon	Year Ended		
31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021
(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)
- 19	- 8	- 8	-	-	- **	- 2	- 2	- 1	- 1		- 6
(6.32)	(4.93)	(5.66)	(16.17)	(22.02)	(27.96)	(6.37)	(4.96)	(5.88)	(16.25)	(22.53)	(28.86)
(6.32)	(4.93)	(5.66)	(16.17)	(22.02)	(143.43)	(6.37)	(4.96)	(5.88)	(16.25)	(22.53)	(144.46)
(6.32)	(4.93)	(5.66)	(16.17)	(22.02)	(143.43)	(6.37)	(4.96)	(5.88)	(16.25)	(22.53)	(144.46)
1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90
		8		8	(902.08)						(1,663.48)
(0.003) (0.003)	(0.002) (0.002)	(0.003) (0.003)	(0.008) (0.008)	(0.011) (0.011)	(0.072) (0.072)	(0.003) (0.003)	(0.002) (0.002)	(0.003) (0.003)	(0.008) (0.008)	(0.011) (0.011)	(0.072) (0.072)
	31.12.2021 (Un-audited) - (6.32) (6.32) (6.32) 1,998.90	31.12.2021 30.09.2021 (Un-audited) (Un-audited) (6.32) (4.93) (6.32) (4.93)  1,998.90 1,998.90  (0.003) (0.002)	Summer   S	31.12.2021         30.09.2021         31.12.2020         31.12.2021           (Un-audited)         (Un-audited)         (Un-audited)         (Un-audited)           -         -         -         -           (6.32)         (4.93)         (5.66)         (16.17)           (6.32)         (4.93)         (5.66)         (16.17)           1,998.90         1,998.90         1,998.90         1,998.90           (0.003)         (0.002)         (0.003)         (0.008)	Nine Months Ended   31.12.2021   30.09.2021   31.12.2020   31.12.2021   31.12.2020   (Un-audited)   (Un-audit	Quarter Ended         Nine Months Ended         Year Ended           31.12.2021         30.09.2021         31.12.2020         31.12.2021         31.12.2020         31.03.2021           (Un-audited)         (Un-audited)         (Un-audited)         (Un-audited)         (Un-audited)         (Audited)           -         -         -         -         -         -         -           (6.32)         (4.93)         (5.66)         (16.17)         (22.02)         (143.43)           (6.32)         (4.93)         (5.66)         (16.17)         (22.02)         (143.43)           1,998.90         1,998.90         1,998.90         1,998.90         1,998.90         1,998.90         1,998.90           (0.003)         (0.002)         (0.003)         (0.008)         (0.011)         (0.072)	Nine Months Ended   Year Ended   31.12.2021   30.09.2021   31.12.2020   31.12.2021   31.12.2020   31.03.2021   31.12.2021   (Un-audited)   (Un-audited)	Nine Mo+F Ended   Quarter Ended   31.12.2021   30.09.2021   31.12.2020   31.12.2021   31.12.2021   31.12.2021   31.03.2021   31.12.2021   30.09.2021	Nine Mo-th	Nine   Nine	Nine   Nine

1. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2021 filed with the Stock Exchange under the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Un-audited Financial Results for the guarter and nine months ended 31st December, 2021 are available on the Stock Exchange Website (www.bseindia.com) and on the Company's Website (www.tritoncorp.in). 2. The above Standalone and Consolidated Financial Statement, prepared in accordance with Indian Accounting Statndards ("Ind AS") as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013

read with relevant rules issued thereunder and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. By the order of the Board

> **For Triton Corp Limited** Meena Rastogi (Chairman)

Be Swasth Healthcare Limited (Formerly known as Ujala Commercials Limited)

CIN: L93000DL1985PLC021397

Regd. Office: A-6/343B, Janta Flats, Paschim Vihar, New Delhi 110063 Email:cs@be-swasth.com, Contact No. 01149879687 Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2021 (Amount in Lacs except EPS)

		Quarter End	ed	Nine mo	Year Ended	
PARTICULARS	31-Dec-21 Unaudited	30-Sep-21 Unaudited	31-Dec-20 Unaudited	31-Dec-21 Unaudited	31-Dec-20 Unaudited	31-Mar-21 Audited
Total Income from operations	2.25	2.26	2.25	6.76	6.75	9.00
Net Profit/ (Loss) Before Exceptional and Extraordinary Items and Tax	(5.26)	(5.58)	(1.11)	(13.19)	(2.41)	(3.46)
Net Profit/ (Loss) after taxes, minority interest and share of profit/(loss) of associates	(5.26)	(5.58)	(1.11)	(13.19)	(2.41)	(4.56)
Total Comprehensive Income for the period	(5.26)	(5.58)	(1,11)	(13.19)	(2.41)	(4.56)
Paid-up equity share (face value ₹ 10/- each)	111.90	111.90	111.90	111.90	111.90	111.90
Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	-	-	-	-	-	13.19
Earning Per Share (of ₹ 10/- each) (not annualised) A) Basic B) Diluted	(0.47)	(0.50)	(0.10)	(1.18)	(0.22)	(0.41)
Notes:			10			

. The above Un-Audited Financial Results of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on February 10, 2022. The Limited Review Report of the Statutory Auditors is being filled with the Metropolitan Stock exchange of 2. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2021, filed

with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2021along with the Limited Review Report of the Statutory Auditors is available on the website of the Stock Exchange i.e. www.msei.in and of the Company i.e. www.be-swasth.in. For Be Swasth Healthcare Limited

(Formerly known as Ujala Commercials Limited

Place: New Delhi Date: 10.02.2022

Sonali Gupta (Director) DIN: 09277676

#### **Macro International Ltd** Macro International Ltd. Regd.Office: 24/147, Plaza Kalpana, Ground Floor, Birhana Road, Kanpur - 208 00

Tel.: (0141) 2373364, 2373164, E-mail: miel1@rediffmail.com

Website: www.miel.co.in CIN: L74120UP1993PLC15605 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ON

31ST DECEMBER, 2021 (Rs. in Lacs) Nine months ended Quarter ended Year ended **Particulars** 31.12.2021 30.09.2021 31.12.2020 31.12.2021 | 31.12.2022 ( Unaudited ) ( Unaudited ) ( Unaudited ) ( Unaudited ) 20.3 Income from Operation Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptions and / or Extraordinary items) Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptiona and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax)] Paid up equity share capital (Face Value of Rs.10/- each) Basic and diluted EPS (Not Annulized) (Rs

Notes:

Diluted

(i) The above results have been reviewed and recommended for the adoption by the Audit Committee to the Board of Directors and have been approved by the Board of Directors at its meeting held on 8th

(ii) The above is an extract of the detailed format of Quarterly audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the website of Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.miel.co.in)

By order of the Board

For MACRO INTERNATIONAL LIMITED (SUDHIR KUMAR PARASRAMPURIA)

Managing Director Place : Kanpur Date: 08.02.2022 DIN: 00358982

## HONDA

## **Honda India Power Products Limited**

(formerly known as Honda Siel Power Products Limited) Regd. Office: 409, DLF Tower B, Jasola Commercial Complex, New Delhi -110025 CIN: L40103DL2004PLC203950

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2021

Website: www.hondaindiapower.com | E-Mail: ho.legal@hspp.com

Quarter ended Nine Months Quarter ended Year ended

F. F. C. P. C.		4110/10			
PARTICULARS	31 Dec 2021	31 Dec 2021	31 Dec 2020	31 Mar 2021	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
Total Income for Operations	33,751	83,262	28,546	95,347	
Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	3,111	7,881	2,865	6,614	
Net Profit for the period (after Exceptional items)	3,111	7,881	2,865	6,614	
Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	2,324	5,895	2,092	4,867	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,322	5,889	2,076	4,858	
Equity Share Capital	1,014	1,014	1,014	1,014	
Reserves	100 mm	1010500000	-	59,537	
Earnings per equity share (of Rs 10 per share) (not annualised):				0.190,000,00	
(a) Basic (Rs.)	22.91	58.12	20.62	47.99	
(b) Diluted (Rs.)	22.91	58.12	20.62	47.99	
	Total Income for Operations Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items) Net Profit for the period (after Exceptional items) Net Profit for the period after tax (after Exceptional items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Reserves Earnings per equity share (of Rs 10 per share) (not annualised): (a) Basic (Rs.)	Total Income for Operations Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items) Net Profit for the period (after Exceptional items) Net Profit for the period after tax (after Exceptional items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)  Equity Share Capital Reserves Earnings per equity share (of Rs 10 per share) (not annualised):  (a) Basic (Rs.)  (b) Dibated (Re)  133,751 3,111 2,324 2,322	PARTICULARS    31 Dec 2021   31 Dec 2021     Unaudited   Unaudited	Total Income for Operations Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items) Net Profit for the period (after Exceptional items) Net Profit for the period (after Exceptional items) Net Profit for the period after tax (after Exceptional items) Net Profit for the period after tax (after Exceptional items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]  Equity Share Capital Reserves Earnings per equity share (of Rs 10 per share) (not annualised):  (a) Basic (Rs.)  (b) Piloted (Ps.)	PARTICULARS   31 Dec 2021   31 Dec 2020   31 Dec 2020   31 Mar 2021

The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December 2021, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Nine Months financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.hondaindiapower.com).

Honda India Power Products Limited

Place: New Delhi Date: February 10, 2021

S. | Particulars

Takahiro Ueda CMD and President & CEO DIN: 08685990

Nine Months Ended Year Ended

For and on behalf of the Board of Directors of

## **MOONGIPA SECURITIES LTD**

Regd. Office: 18/14, W.E.A., Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi-110005 Phone no.: 011-41450121 Email: moongipas@gmail.com, Website: www.moongipa.net

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & **NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31. 2021** (Amount Rs. in Lacs, except per share data)

**Quarter Ended** 

No		31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations (Net)	140.20	63.97	79.81	285.71	138.50	239.50
2	Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	97.26	41.25	54.28	202.38	93.33	165.07
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	97.26	41.25	54.28	202.38	93.33	165.07
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	70.18	24.53	49.61	147.46	91.70	157.92
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	70.18	24.53	49.61	147.46	91.70	157.92
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 10/- each)	501.02	501.02	501.02	501.02	501.02	501.02
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as show in the Audited balance sheet of the previous year)	308.00	308.00	150.09	308.00	150.09	150.09
8	Earning Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (a) Basic (b) Diluted	1.40 1.40	0.49 0.49	0.99 0.99	2.94 2.94	1.83 1.83	3.15 3.15

NOTES:

1 The above standalone Unaudited Financial Results for the quarter & nine months ended December 31, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 10<sup>th</sup> February, 2022.

The above is an extract of the detail format of the Standalone Unaudited Financial Results for the guarter & nine months ended December 31, 2021, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation 2015. The complete format of the above Financial Result is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and company's website (www.moongipa.net). For and on behalf of Board of Directors o

> sd/-Ruchi Jain

MOONGIPA SECURITIES LTD.

(Whole Time Director) DIN: 07291623

**DIN: 01572002** 

Date: 10.02.2022

ew Delhi

Place: New Delhi

(रु. लाख में

**MOONGIPA SECURITIES LTD** 

(CIN: L74899DL1994PLC057941) Regd. Office: 18/14, W.E.A., Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi-110005 Phone no.: 011-41450121

Email: moongipas@gmail.com, Website: www.moongipa.net STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & **NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021** 

(Amount Rs. in Lacs, except per share data) Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended S. | Particulars 31.12.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.03.2021 No. Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Total Income from Operations (Net) 140.20 285.71 239.50 97.26 41.25 202.38 93.33 2 Net Profit/Loss for the period (before tax. 54.28 165.07 Exceptional and /or Extraordinary Items) 3 Net Profit/(Loss) for the period before tax 97.26 41.25 54.28 202.38 93.33 165.07 (after Exceptional and/or Extraordinary items) 4 Net Profit/(Loss) for the period after tax 24.53 70.18 49.61 147.46 91.70 157.92 (after Exceptional and/or Extraordinary items) 5 Total Comprehensive Income for the period 70.18 24.53 49.61 147.46 91.70 157.92 [Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 6 Paid-up equity share capital 501.02 501.02 501.02 501.02 501.02 501.02 (face value of Rs. 10/- each) Reserve (excluding Revaluation Reserve) 308.00 308.00 308.00 150.09 150.09 150.09 as show in the Audited balance sheet of the previous year) 8 Earning Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1.40 0.49 0.99 1.83 3.15 2.94 1.40 0.99 2.94 1.83 (b) Diluted 0.49 3.15

NOTES: The above standalone Unaudited Financial Results for the guarter & nine months ended December 31, 2021 have been reviewed by

the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 10<sup>th</sup> February, 2022. The above is an extract of the detail format of the Standalone Unaudited Financial Results for the guarter & nine months ended December 31, 2021, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation 2015. The complete format of the above Financial Result is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and company's website (www.moongipa.net). For and on behalf of Board of Directors of

> Ruchi Jain (Whole Time Director)

**MOONGIPA SECURITIES LTD.** 

Date: 10.02.2022 DIN: 07291623 अरावली सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेस लिमिटेड सीआईएनः L67120HR1980PLC039125

पंजीकृत कार्यालयः भूखंड सं. 136, चत्र्थं तल, राइडर हाउस, सेक्टर-44, गुड़गांव-122003, हरियाणा ईमेलः info@aravalisecurities.com, वेबसाइटः www.aravalisecurities.com, 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र.	विवरण		समाप्त तिमाह		समाप्त	नौ माह	समाप्त वष
सं.		31.12.2021 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2021 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2020 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2021 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2020 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2021 (लेखापरीक्षित
1	कुल आय	31.47	168.01	14.98	330.33	127.39	144.57
2	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1.59	136.16	(9.09)	234.49	25.42	7.58
	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक		136.16	(9.09)	234.49	25.42	7.58
	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)		97.95	(9.09)	188.93	26.83	7.57
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाम / हानि (कर उपरांत) तथा व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट)	0.09	0.02	0.05	0.16	0.17	(0.44)
6	समता अंश पूंजी	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38
	आरक्षितियां (पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र में निदर्शितानुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)						(1662.78)
8	आय प्रति अंश (रु. 10 / — प्रत्येक की) मूलः	₹. 0.01	रु. 0.65	₹. (0.06)	रु. 1.25	₹. 0.18	₹. 0.05
	तरलः	रु. 0.01	रु. 0.65	रु. (0.06)	रु. 1.25	रु. 0.18	रु. 0.05

दर्ज तिमाही एवं नौ माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप जो है वह बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com), जहां पर कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, और कंपनी की वेबसाइट (www.aravalise-

२) उपरोक्त वित्तीय परिणामों को आईएनडी एएस 34 (''अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदनीकरण'') में निर्धारित मान्य एवं प्रमापित सिद्धांतों के संबंध में, कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों ('आईएनडी एएस') तथा सामान्य रूप में भारत में स्वीकृत अन्य मान्यताप्राप्त पद्धतियों के अनुसार और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 (''स्चीकरण विनियमावली'') के विनियम 33 के अनुपालन में तैयार किया गया है।

3) दिनांक 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के कंपनी के उपर्युक्त वर्णित अलेखापरीक्षित परिणाम की लेखा–परीक्षक समिति द्वारा समीक्षा कर दी गई है तथा परिणाम को निदेशक मंडल द्वारा 10 फरवरी 2022 को आयोजित की गई अपनी बैठक में अनमोदित कर दिया गया है। 4) दिनांक 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के वित्तीय परिणामों की समीक्षा सेबी (सचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए

विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत अपेक्षितानुसार संवैधानिक लेखा-परीक्षकों द्वारा कर दी गई है। 5) आय कर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कराधान का प्रावधान जो है वह पूरे वर्ष के लिए प्रत्याशित काराधान आय पर आधारित किया गया है। o) वर्तमान में कंपनी का संचालन जो है वह केवल एक खंडवार अर्थात वित्तीय एवं अन्य परामर्शक सेवाएं प्रदान करने तक सीमित है तथा तदनुसार

यहां आईएनडी एएस 108-प्रचालनात्मक खंडवारों के अनुसार कोई पृथक प्रतिवेदनयोग्य प्रचालनात्मक खंडवार नहीं है। ') दिनांक 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के आंकड़े संतुलनकारी आंकड़े हैं जो कि 31 दिसंबर 2021 को समाप्त नौ माह तथा 30 सितंबर 202

को समाप्त छमाही के संदर्भ में प्रस्तुत अलेखापरीक्षित आंकड़ों के बीच अंतर के रूप में हैं, जो सीमित समीक्षा के अधीन थे। B) पूर्ववर्ती तिमाही / वर्ष के आंकड़ों को, उन्हें तूलनायोग्य बनाने के क्रम में, जहां कहीं अभी अनिवार्य समझा गया है, पुनर्समृहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है

बोर्ड के आदेश द्वार कृते अरावली सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस लिमिटेड

रंजन कुमार पोददार

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशव

जोनल सस्त्र सेंटर

सार्वजनिक उदघोषणा (भारतीय ऋणषोधन क्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों हेतू ऋणषोधन क्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत) ईएमडी स्कॉफोल्डिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

मीकृत / पंजीकृत है प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता नगर ओखला नर्ड दिल्ली. दिल्ली—110025 (09.02.2022 को प्राप्त आदेश) अनुमानित तिथि IBBI/IPA-001/IP-P00441/2017-18/10784

पेषेवर का पता तथा ई-मेल सेक्टर–12, द्वारका, नई दिल्ली–110078 ई–मेल : kritmassociates@gmail.com उपयोग किया जानेवाला पता तथा ई-मेल 7, द्वारका, नई दिल्ली-110075 ई—मेल : ip.cirp.emdscaffolding@gmail.com

की उप–धारा (६ए) के उपवाक्य (बी) के अंतर्गत ऋणदाताओं की श्रेणियां, यदि कोई हों

निधि के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित ऋणषोधन क्षमता पेषेवरों के नाम (प्रत्येक श्रेण 4। दावा प्रस्तत करने के लिए उपयुक्त प्रारूप / प्रपन्न https://ibbi.gov.in/home/downloads

रतदद्वारा ईएमडी स्कॉफोल्डिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं को, प्रविष्टि सं. 10 के समक्ष वर्णित प

पर, अंतरिम समाधान पेषेवर के पास, 23.02.2022 को अथवा इससे पूर्व, साक्ष्य के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने वित्तीय लेनदार अपने दावों को साक्ष्य के साथ केवल इलेक्टॉनिक माध्यम द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन्य लेनद दावों को साक्ष्य के साथ व्यक्तिगत रूप में, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा कर सकते हैं।

दिनांक: 11.02.2022 कृत नारायण मिश्रा

पंजाब नैशनल बेंक

Place: New Delhi

punjab national bank ...the name you can BANK upon!

दिनांक: 10.02.2022

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत गाँग

स्थानः गुड़गांव

प्रथम तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, ई-मेल: zs8343@pnb.co.in

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतू बिक्री सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभृति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभृत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) रं बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर ''जहाँ है वहाँ है'', ''जो है वहीं है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

प्रतिभृत आस्तियों की अनुसूची

<del>5</del> .	शाखा का नाम	सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि	अचल सम्पात्तया का विवरण बंधककर्ता/स्वामी का नाम	भुगतान तक आरक्षित मूल्य	भुगतान तक	भुगतान तक	भुगतान तक	भुगतान
	खाते का नाम	तिथि तक बकाया राशि	बधककता/स्वामा का नाम [सम्पत्ति( यों ) के बंधककर्ता ]	(रु. लाख में)	ई-नीलामी <del>-</del>	सम्पत्ति के	प्रतिभूति क्रेडिटर के संज्ञान में	
	कर्जदार/जमानितयों का	ाताय तक बकाया साश सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा		ईएमडी (ईएमडी जमा करने की	की तिथि⁄समय	निरीक्षण की	क सज्ञान म ऋणभारों का	प्राधिक नाम एवं
	नाम तथा पता खाता	करने की तिथि		अन्तिम तिथि)	ाताथ/समय	तिथि एवं समय	विवरण	नाम एव
		कब्जे की प्रकृति		संविदा			199(9)	· '
		सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक		वृद्धि राशि				
	र्व डायमंड हट्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड 2883/17, रीजेंट टॉवर, हरध्यान सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005	04.08.2014	1. दुकान संख्या 6 और 7 वेडिंग सूक मॉल, पीतमपुरा, दिल्ली, क्षेत्र 1152 वर्ग फुट (577 + 575) मैसर्स डायमंड ह	रु. 123.00 लाख रु. 12.30 लाख (25.02.2022)	28.02.2022	22.02.2022	ज्ञात नहीं	श्री अशो
	अशोक वर्मा, पुत्र श्री राम कुमार वर्मा, निदेशक और गारंटर, ए-6, डेरावल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली - 110009	रु. 242.06 करोड़ + माननीय डीआरटी दिल्ली द्वारा जारी आरसी	इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर।		11:00 बजे पूर्वा.	12:00 बजे पूर्वा.		ग्री मोबाः
	वेजय कुमार पुत्र श्री मणि राम, गारंटर, ए-6, डेरावल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली-110009	के अनुसार 28.12.2019 से ब्याज		₹.50,000/-	स	04:00 बजे अप.		माबा 83770
	र्ग अष्टविनायक ज्वैलर (प्रा.) लिमिटेड, (पूर्व में मैसर्स डायमंड ज्वेल्स (प्रा.) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), 177/178, मेन मार्केट, मंडी, पुराने बस स्टैंड के पास, चरखी दादरी, भिवानी, हरियाणा-127021।		2. वाणिज्यिक प्रस्ताव दूसरी मंजिल पर 3162-64 प्लॉट नंबर 99 ब्लॉक पी गली नंबर 32-33 बीडन पुरा, करोल बाग		04:00 बज अप.	04.00 99 519.		83//0
	मंडा, पुरान बस स्टंड के पास, चरखा दांदरा, ामवाना, हारयाणा- 12702 । । गुरेश वर्मा, पुत्र श्री राम कुमार वर्मा, निदेशक और गारंटर, ए-6, डेरावल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली - 110009	19.02.2015	नई दिल्ली 1330 वर्ग फुट।	रु. 15.70 लाख (25.02.2022)				
	ती अमिता वर्मा पत्नी श्री सुरेश वर्मा (गारंटर) ए-6, डेरावल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली-110009	सभी आईपी भौतिक कब्जे के तहत हैं		रु.50,000/−				
	ती पूजा वर्मा पत्नी श्री प्रदीप कुमार, गारंटर, डब्ल्यूजेड-1945-बी, रानी बाग, दिल्ली-110034		3. वाणिज्यिक प्रस्ताव तीसरी मंजिल पर 3162-64 गली नंबर 32-33 बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली 1330 व					
	र्न रचना डायमंड हाउस (प्रा.) लिमिटेड 3324, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005।		फुट।	रु. 15.21 लाख (25.02.2022)				
				₹.50,000/-				
			4. वाणिज्यिक सम्पत्ति संख्या 8570 प्लॉट नंबर 6 ब्लॉक-54 (भूतल) देश बंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, दिल्ली प्लॉ	रु. 1729 लाख रु.172.90 लाख (25.02.2022)				
			एरिया 1105 वर्ग मीटर / निर्मित क्षेत्र 4753 वर्ग फुट, मैसर्स रचना डायमंड हाउस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर	रु. 172.90 लाख (25.02.2022) रु. 50,000/-				
सर	र्न मैंगप्पी इंटरनेशनल लिमिटेड 206, दूसरी मंजिल जैक्सन क्राउन हाइट्स प्लॉट नं. 381, ट्विन डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सेक्टर-10, रोहिणी दिल्ली -	11.09.2019	1. फ्लैट नं. पीडी-4-बी पीतमपुरा, दिल्ली में स्थित सुश्री रानी जैन पत्नी श्री एस.के. जैन के नाम पर	₹. 52.84 lakhs	28.02.2022	22.02.2022 12:00 बजे पूर्वा.	ज्ञात नहीं	श्री अश
		रु. 88,12,22,962.41 + भावी ब्याज + लागत तथा 11.09.2019		र. 5.29 লাख (25.02.2022)	11:00 बजे पूर्वा. से	से 04:00 बजे अप.		। ग्रं मोब
	र्ग मैगप्पी इंटरनेशनल लिमिटेड 215, एचएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, कुंडली, जिला सोनीपत – 131028 (हरियाणा)। फेलाश चंद जैन पुत्र स्वर्गीय श्री गोपी राम जैन, एमडी–25, पीतमपुरा, दिल्ली – 110088।	से अन्य प्रभार		₹.50,000/-	04:00 बज अप.			8377
יו ווי	क्लाश चंद जैन पुत्र स्वर्गाय श्रा गोपा राम जैन, एमडी-25, पीतमपुरा, दिल्ली - 110088। गुरेश चंद जैन पुत्र स्वर्गीय श्री गोपी राम जैन, एमडी-25, पीतम पुरा, दिल्ली - 110088	01.01.2020	2. फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 25 ब्लॉक- एमडी माप 253 वर्ग मीटर, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 में स्थित क		16.03.2022	11.03.2022		03//0
ा र ग्री f	वृत्ती चेद जन पुत्र स्वर्गाय श्री गोपी राम जैन, एमडी-25, पीतम पुरा, दिल्ली - 110088।	सभी आईपी भौतिक कब्जे के तहत हैं	सम्पूर्ण भाग, साथ ही उस पर निर्मित अधिरचना, लेफ्टिनेंट गोपी राम जैन पुत्र श्री शिव चंद जैन के नाम पर	रु. 128 लाख (14.03.2022)	11:00 बजे पूर्वा.	12:00 बजे पूर्वा.		
	ानीष भास्कर पुत्र श्री. कंवल रतन भास्कर 248, भेरा एन्क्लेव, पश्चिम विहार, दिल्ली - 110087।			रु. 1,00,000/-	से	स 04:00 <del>च्चे</del> क्या		
	गोपी राम जैन पुत्र शिव चंद राय जैन, (उनके कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से बैंक को ज्ञात नहीं) एमडी -25, पीतम पुरा, दिल्ली -				04:00 बजे अप.	04:00 बजे अप.		
110	088							
	वेकास जैन पुत्र सुलेख चंद जैन जी–18, साउथ सिटी –1, हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर – 41, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001							
	हणाल जैन पुत्र श्री कैलाश चंद जैन, एमडी−25, पीतम पुरा, दिल्ली - 110088।							
सुश्री	अनुराधा जैन पत्नी श्री कैलाश जैन, एमडी-25, पीतम पुरा, दिल्ली - 110088।							
	रानी जैन पत्नी श्री सुरेश जैन एमडी-25, पीतम पुरा, दिल्ली - 110088।							
श्रा र	नुलेख चंद जैन पुत्र श्री गोपी राम जैन, जी-18, साउथ सिटी-1, हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर - 41, गुरुग्राम, हरियाणा - 122001							
नैसर	र्ग र्ग ईएमएस एंड एक्सपोर्ट्स अपने भागीदारों श्री अमरजीत सिंह कालरा, और श्रीमती जगजीत कौर कालरा के माध्यम से, सी–130, मानसरोवर	25.06.2019	1. आवासीय – अचल संपत्ति लोअर ग्राउंड फ्लोर, छत के अधिकार रहित, दक्षिणी साइट भाग, डब्ल्यूजेड–15 में संपि	रू. 19.15 लाख	28.02.2022	22.02.2022	ज्ञात नहीं	श्री अशो
	न, नई दिल्ली-110015। इसके अलावाः सी-17 और 18, इंडिस्ट्रियल एस्टेट काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड- 244713। इसके अलावाः		निर्मित, माप क्षेत्रफल 76 वर्ग गज (लगभग), खसरा नं. 328/329, ग्राम तिहाड़, कॉलोनी उग्रसेन मार्केट, अशोक नगर		11:00 बजे पूर्वा.	12:00 बजे पूर्वा.		ग्रो
	ा नं. 301, दूसरी मंजिल, डब्ल्यूजेड-15-बी उग्रसैन मार्केट, अशोक नगर, नई दिल्ली-110008.	से अन्य प्रभार	तिलक नगर, नई दिल्ली-110018 में स्थित, मेसर्स ईएमएस एंड एक्सपोर्ट्स के नाम पर इसके साझेदार एस. अमरजी	र र.25,000/−	से	से		मोबा
	अमरजीत सिंह कालरा पुत्र श्री सुरिंदर सिंह कालरा सी-130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली - 110015	07.10.2019	सिंह कालरा पुत्र सुरिंदर सिंह कालरा के माध्यम से।		04:00 बजे अप.	04:00 बजे अप.		83770
	ती जगजीत कौर कालरा पत्नी श्री सुरिंदर सिंह कालरा सी-130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली - 110015।	आईपी सं. 1 एवं 7 भौतिक कब्जे में और आईपी सं. 2 से 5						
	ती सुरिंदर कौर कालरा पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा सी-130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015।		2. दूसरी मंजिल, प्राइवेट नंबर 113, ग्राम मटियाला कॉलोनी, टी-एक्सटेंशन, भाग III - जैन कॉलोनी, उत्तम नगर					
	र्न नेहा एक्सपोर्ट्स (कर्जदार) अपने प्रोपराइटर श्रीमती मधु गुलाटी पत्नी श्री जसपाल सिंह के माध्यम से। व्यवसाय का पताः 5/1, धारूहेड़ा	साकारक कब्ब म ह	दिल्ली - 110059 में निर्मित संपत्ति संख्या 104 ए में छत के अधिकार रहित दक्षिण-पश्चिम की ओर, श्रीमती सुरिंदर कौ					
	ोगिक क्षेत्र, रेवाड़ी, हरियाणा – 122001 ती मधु गुलाटी पत्नी श्री जसपाल सिंह (प्रोपराइटर, मैसर्स नेहा एक्सपोर्ट्स), पंजीकृत कार्यालयः डब्ल्यूजेड-113, स्ट्रीट नंबर 34, ग्राउंड फ्लोर,		कालरा के नाम पर, क्षेत्रफलः 540 वर्ग फुट।	₹.25,000/-				
	ता मधु गुलाटा पत्ना श्रा जसपाल सिंह (प्रापराइटर, मसस नहा एक्सपाट्स), पंजाकृत कायालयः डब्ल्यूजड=113, स्ट्राट नबर 34, ग्राउड फ्लार, ाढु, एमबीएस नगर, दिल्ली – 110018		3. सी-130, निचला भूतल, ग्राम बसई दारापुर, मानसरोवर गार्डन, दिल्ली में, अमरजीत सिंह कालरा पुः	रु. 88.00 लाख				
	क, एनबार्स नगर, प्रत्या – 170018 ती सुरिंदर कौर कालरा पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा, (बंधककर्ता / प्रोपराइटर) फ्लैट नंबर 113, दूसरी मंजिल, संपत्ति का हिस्सा नंबर		सुरिंदर सिंह कालरा के नाम पर। क्षेत्रफलः 2050 वर्ग फुट।	रु. 8.80 लाख (25.02.2022)				
	ए, खसरा नंबर 20/20, ग्राम मटियाला कॉलोनी, टी-एक्सटेंशन, भाग कक्क जैन कॉलोनी, उत्तम नगर , नई दिल्ली		4. सी-130, अपर ग्राउंड फ्लोर, ग्राम बसई दारापुर, मानसरोवर गार्डन, दिल्ली, जगजीत कौर कालरा वे	रु. 50,000/−				
	ती मधु गुलाटी पत्नी श्री जसपाल सिंह (प्रोपराइटर, मैसर्स नेहा एक्सपोर्ट्स) म.नं. 41 / बी ओशो गार्डन, जगजीत नगर के पास, राजगुरु नगर		नाम पर सुरिंदर सिंह कालरा, क्षेत्रफलः 2050 वर्ग फुट	<b>হ. 227.00 লা</b> ख				
र्क्स	टेंशन, तहसील और जिला लुधियाना, पंजाब		5. सी-130, द्वितीय तल, ग्राम बसई दारापुर, मानसरीवर गार्डन, नई दिल्ली, अमरजीत सिंह कालरा पुः	रु. 22.70 लाख (25.02.2022)				
	र्न नेहा एक्सपोर्ट्स (कर्जदार) अपने प्रोपराइटर श्रीमती मधु गुलाटी पत्नी श्री जसपाल सिंह के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालयः डब्ल्यूजेड-113,		सुरिंदर सिंह कालरा के नाम पर के नाम पर। क्षेत्रफलः 2050 वर्ग फुट।	₹. 50,000/-				
	नंबर 34, ग्राउंड फ्लोर, संतगढ़, एमबीएस नगर, दिल्ली - 110018		6. निर्मित आवासीय संपत्ति में छत/टेरेस के अधिकारों के बिना, पहली मंजिल फ्रीहोल्ड नं. सी-130, बस	रु. 227.00 लाख				
	ती सुरिदर कौर कालरा पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा, (बंधककर्ता/प्रोपराइटर) दूसरी मंजिल, संपत्ति संख्या ए-2/122, ग्राम बसई दारापुर,		दारापुर गांव, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली – 110015 में स्थित, श्रीमती सुरिंदर कौर कालरा के नाग	रु. 22.70 लाख (25.02.2022)				
	री गार्डन, नई दिल्ली 110027		पर। क्षेत्रफल 310.00 वर्ग गज	₹. 50,000/-	S 50	22		4
HIK	ती मधु गुलाटी पत्नी श्री जसपाल सिंह (प्रोपराइटर, मैसर्स नेहा एक्सपोर्ट्स) 41-बी, खसरा नंबर 1483/528, 1484/528, 5510/524, 4/523 का हिस्सा, महलबगत, चकबंदी संख्या 164, तहसील और जिला लुधियाना, पंजाब	2110012017		रु.267.00 lakhs	28.02.2022	22.02.2022	ज्ञात नहीं	श्री मुद्
117		रु.3317.16 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक भावी ब्याज एवं		रु. 26.70 लाख (25.02.2022)	11:00 बजे पूर्वा.	12:00 बजे पूर्वा.		मोब
	ती सरिंदर कौर कालरा पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा (बंधककर्ता/पोपगदरर) द्रब्ल्यजेद=15बी/1 ट्रायरी मंजिल प्लॉट नंबर 14 और 15			₹. 50,000/-	से 04:00 बजे	से 04:00 बजे		96903
श्रीम	ती सुरिंदर कौर कालरा पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा, (बंधककर्ता/प्रोपराइटर) डब्ल्यूजेड-15बी/1, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 14 और 15, रा, अशोक नगर के पास, नई दिल्ली - 110015	प्रभार तथा अन्य व्यय		χ. 50,000/		2777		
श्रीम तंतप्	रा, अशोक नगर के पास, नई दिल्ली - 110015	प्रभार तथा अन्य व्यय 15.11.2019		(1.56,600)	अप.	अप.		
ग्रीम गंतप्	रा, अशोक नगर के पास, नई दिल्ली - 110015 टि: सम्पत्ति क्रमांक 1 से 5 मैसर्स ईएमएस एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है तथा सम्पत्ति क्रमांक 6 मैसर्स नेहा	प्रभार तथा अन्य व्यय	नोट : सम्पत्ति क्रमांक 3, 4, 5 एवं 6 केवल एकल लॉट में बेची जायेगी एकल लॉट हेत आरक्षित मुल्य के 809.00 लाख तथा एकल लॉट हेत ईएमुडी के 80.90 लाख	(1.55,000)		अप.		
भीम पंतप् न	रा, अशोक नगर के पास, नई दिल्ली - 110015 टि : सम्पत्ति क्रमांक 1 से 5 मैसर्स ईएमएस एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है तथा सम्पत्ति क्रमांक 6 मैसर्स नेहा एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है।	प्रभार तथा अन्य व्यय 15.11.2019 भौतिक कब्जा	एकल लॉट हेतु आरक्षित मूल्य रु. 809.00 लाख तथा एकल लॉट हेतु ईएमडी रु. 80.90 लाख		अप.	51 11		<del></del>
ोम तिपु न	रा, अशोक नगर के पास, नई दिल्ली - 110015  ट : सम्पत्ति क्रमांक 1 से 5 मैसर्स ईएमएस एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है तथा सम्पत्ति क्रमांक 6 मैसर्स नेहा एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है। र्ह एफ.ई. इंडिया लिमिटेड एफ-58/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज- I, नई दिल्ली - 110 020। इसके अलावाः (कार्पोरेट कार्यालय)	प्रभार तथा अन्य व्यय 15.11.2019 भौतिक कब्जा 03.12.2015, 11.12.15, 13.01.16, 12.05.2016 तथा	एकल लॉट हेतु आरक्षित मूल्य रु. 809.00 लाख तथा एकल लॉट हेतु ईएमडी रु. 80.90 लाख फ्लैट नं. एफ-3, प्रथम तल, भूमि प्लॉट नं डब्ल्यू-19, जीके II, नई दिल्ली, मैसर्स कृष्णा फिनलीज (प्रा.) लि.	<b>হ. 136.00 লা</b> ख	अप. 28.02.2022	22.02.2022	ज्ञात नहीं	
ीम ांतपु सर	रा, अशोक नगर के पास, नई दिल्ली - 110015 ट : सम्पत्ति क्रमांक 1 से 5 मैसर्स ईएमएस एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है तथा सम्पत्ति क्रमांक 6 मैसर्स नेहा एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है। र्ग एफ.ई. इंडिया लिमिटेड एफ-58/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज- I, नई दिल्ली - 110 020। इसके अलावाः (कार्पोरेट कार्यालय) यू -19, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048	प्रभार तथा अन्य व्यय 15.11.2019 भौतिक कब्जा 03.12.2015, 11.12.15, 13.01.16, 12.05.2016 तथा 13.07.2017 कंसोर्टियम बैंकों अर्थात पीएनबी, एसबीआई,	एकल लॉट हेतु आरक्षित मूल्य रु. 809.00 लाख तथा एकल लॉट हेतु ईएमडी रु. 80.90 लाख	रु. 136.00 লাख रु. 13.60 লাख (25.02.2022)	अप.	22.02.2022	ज्ञात नहीं	ग्रं
गिम गि सर	रा, अशोक नगर के पास, नई दिल्ली - 110015 <b>ट :</b> सम्पत्ति क्रमांक 1 से 5 मेसर्स इंएमएस एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है तथा सम्पत्ति क्रमांक 6 मेसर्स नेहा  एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है।  र्पे एफ.ई. इंडिया लिमिटेड एफ-58/1, ओखला इंडिस्ट्रियल एरिया फेज- I, नई दिल्ली - 110 020। इसके अलावाः (कार्पोरेट कार्यालय)  पू -19, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048 ती अभिलाषा अग्रवाल, एस-474, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048। इसके अलावाः डी-01, विला पैराडिस्को, प्रोवोरिम बेटिम,	प्रभार तथा अन्य व्यय 15.11.2019 भौतिक कब्जा 03.12.2015, 11.12.15, 13.01.16, 12.05.2016 तथा 13.07.2017 कंसोटिंयम बैंकों अर्थात पीएनबी, एसबीआई,	एकल लॉट हेतु आरक्षित मूल्य रु. 809.00 लाख तथा एकल लॉट हेतु ईएमडी रु. 80.90 लाख फ्लैट नं. एफ-3, प्रथम तल, भूमि प्लॉट नं डब्ल्यू-19, जीके II, नई दिल्ली, मैसर्स कृष्णा फिनलीज (प्रा.) लि.	<b>হ. 136.00 লা</b> ख	अप. 28.02.2022 11:00 बजे पूर्वा. से	22.02.2022 12:00 बजे पूर्वा. से	ज्ञात नहीं	ग्रं मोब
श्रीम मंतपु नैसर श्रीम गोवा	रा, अशोक नगर के पास, नई दिल्ली - 110015 <b>ट : सम्पत्ति क्रमांक 1 से 5 मैसर्स इंएमएस एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है तथा सम्पत्ति क्रमांक 6 मैसर्स नेहा एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है।</b> ई एफ.ई. इंडिया लिमिटेड एफ-58/1, ओखला इंडिस्ट्रियल एरिया फेज- I, नई दिल्ली - 110 020। इसके अलावाः (कार्पोरेट कार्यालय)  बू -19, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048  ती अभिलाषा अग्रवाल, एस-474, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048। इसके अलावाः डी-01, विला पैराडिस्को, प्रोवोरिम बेटिम, -403521 में स्थित आवासीय विला	प्रभार तथा अन्य व्यय  15.11.2019 भौतिक कब्जा  03.12.2015, 11.12.15, 13.01.16, 12.05.2016 तथा 13.07.2017 कंसोटियम बैंकों अर्थात पीएनबी, एसबीआई, सीबीआई एवं केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी	एकल लॉट हेतु आरक्षित मूल्य रु. 809.00 लाख तथा एकल लॉट हेतु ईएमडी रु. 80.90 लाख फ्लैट नं. एफ-3, प्रथम तल, भूमि प्लॉट नं डब्ल्यू-19, जीके II, नई दिल्ली, मैसर्स कृष्णा फिनलीज (प्रा.) लि. (अब मैसर्स ह्वाइट वुड ट्रेडिंग (प्रा.) लि. के नाम पर, क्षेत्रफल 1035 वर्ग फीट	रु. 136.00 লাख रु. 13.60 লাख (25.02.2022)	अप. 28.02.2022 11:00 बजे पूर्वा. से	22.02.2022	ज्ञात नहीं	ग्रं मोब
श्रीम पंतप् नैसर इब्ल श्रीम गोवा	रा, अशोक नगर के पास, नई दिल्ली - 110015 <b>ट : सम्पत्ति क्रमांक 1 से 5 मैसर्स इंएमएस एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है तथा सम्पत्ति क्रमांक 6 मैसर्स नेहा एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है।</b> ई एफ.ई. इंडिया लिमिटेड एफ-58/1, ओखला इंडिस्ट्रियल एरिया फेज- I, नई दिल्ली - 110 020। इसके अलावाः (कार्पोरेट कार्यालय)  बू -19, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048  ती अभिलाषा अग्रवाल, एस-474, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048। इसके अलावाः डी-01, विला पैराडिस्को, प्रोवोरिम बेटिम, -403521 में स्थित आवासीय विला	प्रभार तथा अन्य व्यय  15.11.2019 भौतिक कब्जा  03.12.2015, 11.12.15, 13.01.16, 12.05.2016 तथा 13.07.2017 कंसोर्टियम बैंकों अर्थात पीएनबी, एसबीआई, सीबीआई एवं केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी  रु. 205.62 करोड़ + माननीय डीआरटी, दिल्ली द्वारा जारी आरसी	एकल लॉट हेतु आरक्षित मूल्य रु. 809.00 लाख तथा एकल लॉट हेतु ईएमडी रु. 80.90 लाख फ्लैट नं. एफ-3, प्रथम तल, भूमि प्लॉट नं डब्ल्यू-19, जीके II, नई दिल्ली, मैसर्स कृष्णा फिनलीज (प्रा.) लि. (अब मैसर्स ह्वाइट वुड ट्रेडिंग (प्रा.) लि. के नाम पर, क्षेत्रफल 1035 वर्ग फीट	रु. 136.00 লাख रु. 13.60 লাख (25.02.2022)	अप. 28.02.2022 11:00 बजे पूर्वा. से	22.02.2022 12:00 बजे पूर्वा. से	ज्ञात नहीं	ग्रं मोब
श्रीम संतप् मैसर डब्ल श्रीम गोवा मैसर अस्व	रा, अशोक नगर के पास, नई दिल्ली - 110015  ट : सम्पत्ति क्रमांक 1 से 5 मैसर्स इंएमएस एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है तथा सम्पत्ति क्रमांक 6 मैसर्स नेहा एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है।  र एफ.ई. इंडिया लिमिटेड एफ-58/1, ओखला इंडिस्ट्रयल एरिया फेज- I, नई दिल्ली - 110 020। इसके अलावाः (कार्पोरेट कार्यालय)  यू -19, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048  ती अभिलाषा अग्रवाल, एस-474, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048। इसके अलावाः डी-01, विला पैराडिस्को, प्रोवोरिम बेटिम, -403521 में स्थित आवासीय विला  विल्डाइटवुड ट्रेडिंग (प्रा.) लिमिटेड एफ-02 और एफ-03, प्लॉट डब्ल्यू-19, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली - 110048  र्न नेप्च्यून बिल्डमार्ट (प्रा.) लिमिटेड एफ-04, प्लॉट डब्ल्यू-19, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048 इसके अलावाः फ्लैट नं. 401, कीट सेंटर सहार रोड, ली मेरिडियन होटल के बगल में, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400069। इसके अलावाः फ्लैट नं. 403-404, अस्कोट सेंटर	प्रभार तथा अन्य व्यय  15.11.2019 भौतिक कब्जा  03.12.2015, 11.12.15, 13.01.16, 12.05.2016 तथा 13.07.2017 कंसोर्टियम बैंकों अर्थात पीएनबी, एसबीआई, सीबीआई एवं केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी  रु. 205.62 क्रोड़ + माननीय डीआरटी, दिल्ली द्वारा जारी आरसी	एकल लॉट हेतु आरक्षित मूल्य रु. 809.00 लाख तथा एकल लॉट हेतु ईएमडी रु. 80.90 लाख फ्लैट नं. एफ-3, प्रथम तल, भूमि प्लॉट नं डब्ल्यू-19, जीके II, नई दिल्ली, मैसर्स कृष्णा फिनलीज (प्रा.) लि. (अब मैसर्स ह्वाइट वुड ट्रेडिंग (प्रा.) लि. के नाम पर, क्षेत्रफल 1035 वर्ग फीट	रु. 136.00 লাख रु. 13.60 লাख (25.02.2022)	अप. 28.02.2022 11:00 बजे पूर्वा. से	22.02.2022 12:00 बजे पूर्वा. से	ज्ञात नहीं	ग्रं मोब
श्रीम संतप् मैसर डब्ल श्रीम गोवा मैसर अस्ट 'सह	रा, अशोक नगर के पास, नई दिल्ली - 110015 <b>ट : सम्पत्ति क्रमांक 1 से 5 मैसर्स इंएमएस एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है तथा सम्पत्ति क्रमांक 6 मैसर्स नेहा एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है ।</b> ई एफ.ई. इंडिया लिमिटेड एफ-58/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज- I, नई दिल्ली - 110 020। इसके अलावाः (कार्पोरेट कार्यालय) यू -19, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048  ती अभिलाषा अग्रवाल, एस-474, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048। इसके अलावाः डी-01, विला पैराडिस्को, प्रोवोरिम बेटिम, -403521 में स्थित आवासीय विला विलाडिस के एफ-02 और एफ-03, प्लॉट डब्ल्यू-19, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली 110048 के निप्चून बिल्डमार्ट (प्रा.) लिमिटेड एफ-04, प्लॉट डब्ल्यू-19, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048 इसके अलावाः फ्लैट नं. 401, कोट सेंटर सहार रोड, ली मेरिडियन होटल के बगल में, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400069। इसके अलावाः फ्लैट नं. 403-404, अस्कोट सेंटर र रोड, आईटीसी होटल के पास, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400069।	प्रभार तथा अन्य व्यय  15.11.2019 भौतिक कब्जा  03.12.2015, 11.12.15, 13.01.16, 12.05.2016 तथा 13.07.2017 कंसोर्टियम बैंकों अर्थात पीएनबी, एसबीआई, सीबीआई एवं केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी  रु. 205.62 क्रोड़ + माननीय डीआरटी, दिल्ली द्वारा जारी आरसी	एकल लॉट हेतु आरक्षित मूल्य रु. 809.00 लाख तथा एकल लॉट हेतु ईएमडी रु. 80.90 लाख फ्लैट नं. एफ-3, प्रथम तल, भूमि प्लॉट नं डब्ल्यू-19, जीके II, नई दिल्ली, मैसर्स कृष्णा फिनलीज (प्रा.) लि. (अब मैसर्स ह्वाइट वुड ट्रेडिंग (प्रा.) लि. के नाम पर, क्षेत्रफल 1035 वर्ग फीट	रु. 136.00 লাख रु. 13.60 লাख (25.02.2022)	अप. 28.02.2022 11:00 बजे पूर्वा. से	22.02.2022 12:00 बजे पूर्वा. से	ज्ञात नहीं	ग्रे मोब
श्रीम संतप् मैसर डब्ल श्रीम गोवा मैसर अस्व 'सह	रा, अशोक नगर के पास, नई दिल्ली - 110015   ट: सम्पत्ति क्रमांक 1 से 5 मैसर्स इंएमएस एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है तथा सम्पत्ति क्रमांक 6 मैसर्स नेहा एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है ।  ई एफ.ई. इंडिया लिमिटेड एफ-58/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज- I, नई दिल्ली - 110 020। इसके अलावाः (कार्पोरेट कार्यालय) यू -19, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048  ती अभिलाषा अग्रवाल, एस-474, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048। इसके अलावाः डी-01, विला पैराडिस्को, प्रोवोरिम बेटिम, -403521 में स्थित आवासीय विला विला के व्हाइटवुड ट्रेडिंग (प्रा.) लिमिटेड एफ-02 और एफ-03, प्लॉट डब्ल्यू-19, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली 110048 विलेख अलावाः पलैट नं. 401, कोट सेंटर सहार रोड, ली मेरिडियन होटल के बगल में, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400069। इसके अलावाः फ्लैट नं. 403-404, अस्कोट सेंटर र रोड, आईटीसी होटल के पास, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400069। विशेष रियलबिल्ड (प्रा.) लिमिटेड एफ-02 और एफ-03, प्लॉट डब्ल्यू-19, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली - 110048।	प्रभार तथा अन्य व्यय  15.11.2019 भौतिक कब्जा  03.12.2015, 11.12.15, 13.01.16, 12.05.2016 तथा 13.07.2017 कंसोर्टियम बैंकों अर्थात पीएनबी, एसबीआई, सीबीआई एवं केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी  रु. 205.62 करोड़ + माननीय डीआरटी, दिल्ली द्वारा जारी आरसी के अनुसार 28.07.16 से भावी ब्याज  10.04.2018	एकल लॉट हेतु आरक्षित मूल्य रु. 809.00 लाख तथा एकल लॉट हेतु ईएमडी रु. 80.90 लाख फ्लैट नं. एफ-3, प्रथम तल, भूमि प्लॉट नं डब्ल्यू-19, जीके II, नई दिल्ली, मैसर्स कृष्णा फिनलीज (प्रा.) लि. (अब मैसर्स ह्वाइट वुड ट्रेडिंग (प्रा.) लि. के नाम पर, क्षेत्रफल 1035 वर्ग फीट	रु. 136.00 লাख रु. 13.60 লাख (25.02.2022)	अप. 28.02.2022 11:00 बजे पूर्वा. से	22.02.2022 12:00 बजे पूर्वा. से	ज्ञात नहीं	ग्रो मोबा
श्रीम संतप् मैसर डब्ल श्रीम गोवा मैसर अस्व 'सह मैसर मैसर	रा, अशोक नगर के पास, नई दिल्ली - 110015 <b>ट : सम्पत्ति क्रमांक 1 से 5 मैसर्स इंएमएस एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है तथा सम्पत्ति क्रमांक 6 मैसर्स नेहा एक्सपोर्ट्स के पास बंधक है ।</b> ई एफ.ई. इंडिया लिमिटेड एफ-58/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज- I, नई दिल्ली - 110 020। इसके अलावाः (कार्पोरेट कार्यालय) यू -19, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048  ती अभिलाषा अग्रवाल, एस-474, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048। इसके अलावाः डी-01, विला पैराडिस्को, प्रोवोरिम बेटिम, -403521 में स्थित आवासीय विला विलाडिस के एफ-02 और एफ-03, प्लॉट डब्ल्यू-19, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली 110048 के निप्चून बिल्डमार्ट (प्रा.) लिमिटेड एफ-04, प्लॉट डब्ल्यू-19, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली - 110048 इसके अलावाः फ्लैट नं. 401, कोट सेंटर सहार रोड, ली मेरिडियन होटल के बगल में, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400069। इसके अलावाः फ्लैट नं. 403-404, अस्कोट सेंटर र रोड, आईटीसी होटल के पास, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400069।	प्रभार तथा अन्य व्यय  15.11.2019 भौतिक कब्जा  03.12.2015, 11.12.15, 13.01.16, 12.05.2016 तथा 13.07.2017 कंसोर्टियम बैंकों अर्थात पीएनबी, एसबीआई, सीबीआई एवं केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी  रु. 205.62 करोड़ + माननीय डीआरटी, दिल्ली द्वारा जारी आरसी के अनुसार 28.07.16 से भावी ब्याज  10.04.2018	एकल लॉट हेतु आरक्षित मूल्य रु. 809.00 लाख तथा एकल लॉट हेतु ईएमडी रु. 80.90 लाख फ्लैट नं. एफ-3, प्रथम तल, भूमि प्लॉट नं डब्ल्यू-19, जीके II, नई दिल्ली, मैसर्स कृष्णा फिनलीज (प्रा.) लि. (अब मैसर्स ह्वाइट वुड ट्रेडिंग (प्रा.) लि. के नाम पर, क्षेत्रफल 1035 वर्ग फीट	रु. 136.00 লাख रु. 13.60 লাख (25.02.2022)	अप. 28.02.2022 11:00 बजे पूर्वा. से	22.02.2022 12:00 बजे पूर्वा. से	ज्ञात नहीं	श्री अशो ग्रो मोबा 83770

ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :

यह बिक्री प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित नियम तथा शतों के अधीन होगी और आगे के निम्नलिखित शतों के अधीन होगी :

यह नीलामी बिक्री ई-नीलामी पोर्टल http://www.mstcecommerce.com/ के माध्यम से ''ऑनलाइन'' संचालित होगी।

् इच्छुक संविदाकार/क्रेता कृपया अपने मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी का उपयोग करते हुए पोर्टल (https:www.mstcauction.com) पर रिजस्टर करें। पुनः, उनसे निवेदन है कि वे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन होने पर (2 कार्यकारी दिवस लग सकते हैं), इच्छुक संविदाकारों/क्रेताओं को पोर्टल में ई-नीलामी की तिथि एवं समय से पूर्व 28.02.2022 को निर्धारित नीलामी के लिए 25.02.2022 तक और 16.03.2022 को निर्धारित नीलामी के लिए सम्पित्त हेत 14.03.2022 तक अपने ग्लोबल ईएमडी वालेड में ऑनलाइन मोड का उपयोग करते हुए ईएमडी राशि कर स्वाविजों का सत्यापन तथा ईएमडी राशि का अन्तरण नीलामी से पूर्व अग्रिम में ही पूर्ण कर लेने चाहिए।

उपर्युक्त के अनुसार जमा धरोहर राशि (ईएमडी) राशि 3 मोड अर्थात एनईएफटी/अन्तरण (संविदाकार के ग्लोबल ईएमडी वालेट में (https:www.mstcecommerce.com) से चालान सुजित करने के पश्चात) के माध्यम से अदा किया जायेगा। एनईएफटी अन्तरण किसी अनुसुचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है, किन्तु नकद अन्तरण के लिए संविदाकार को पंजाब नैशनल बैंक की शाखा में जाना होगा। किसी अन्य

माध्यम जैसे चेक द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपेक्षित ईएमडी ऑनलाइन नहीं जमा करने वाले संविदाकारों को ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमित नहीं दी जायेगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। ई-नीलामी हेतु प्लेटफॉर्म (https:www.mstcecommerce.com) ई-नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 225-सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700020 (सम्पर्क दूरभाष तथा टोलफ्री नम्बर 079- 41072412/ 411/ 413 अथवा 1800-103-5342) द्वारा प्रावधानित कराया जायेगा। इच्छुक संविदाकारों/क्रेताओं को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट

https:www.mstcecommerce.com पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना अपेक्षित है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे।

बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तों सहित बिक्री सचना निम्नलिखित बेवसाइट/वेबपेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित है : a. https://www.ibapi.in, b. https://eprocure.gov.in/epublish/app, c. http://www.mstcecommerce.com/., d. www.pnbindia.in,

्ई-नीलामी के इच्छुक भागीदार बिक्री सूचना की प्रतियाँ, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें, इस ई-नीलामी से सम्बन्धित ई-नीलामी में प्रचालनात्मक भाग पर हेल्प मैनुअल ई-बीसीयुआईओ-आईबीएपीआई पोर्टल (https://www.ibapi.in) से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।

इच्छुक संविदाकार/क्रेता कृपया अपने मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी का उपयोग करते हुए पोर्टल (https:www.mstcauction.com) पर रजिस्टर करें। पूनः, उनसे निवेदन है कि वे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन होने पर (2 कार्यकारी दिवस लग सकते हैं), इच्छुक संविदाकारों/क्रेताओं को अपने ग्लोबल ईएमडी वालेड में ऑनलाइन

मोड का उपयोग करते हुए ईएमडी राशि हस्तान्तरित करनी होगी। अपने वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने के पश्चात ही, इच्छक संविदाकार ई-नीलामी की तिथि पर संविदा करने में सक्षम होंगे। संविदाकार के ग्लोबल वालेट में संविदा के समय पर्याप्त राशि (ईएमडी राशि के बराबर या इससे अधिक राशि) होनी चाहिए।

. ई-नीलामी के दौरान संविदाकारों को अन्तिम कोट की गयी बोली से अधिक इंटर-से बोली में उच्चतर प्रस्ताव की अनुमित होगी और संविदा में न्यूनतम वृद्धि संविदाकारों को आगामी उच्चतर संविदा के लिए 10 मिनट की अनुमित दी जायेगी और यदि किसी संविदाकार द्वारा अन्तिम उच्चतम बोली के दस मिनटों की समाप्ति के पश्चात कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त होता है तो ई-नीलामी बन्द हो जायेगी।

13. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत), जमा की गई ईएमडी राशि को घटाकर उसी दिन या अगले कार्य दिवस तक जमा करना होगा और शेष राशि का भुगतान नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बैंकर चेक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ''अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, (पीएनबी जोनल सस्त्र खाता संख्या 1522002200000608) के पक्ष में जारी

10. बिक्री सुचना, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें तथा ई-नीलामी की के हेल्प मैनुअल का प्रचालनात्मक भाग उचित रूप से पढ़ना और कठोरता से उनका पालन करना इच्छुक संविदाकार(रों) का दायित्व होगा।

a ) यदि ई-नीलामी प्रक्रिया से पूर्व या इसके दौरान किसी कठिनाई या सहायता की आवश्यकता हो तो हमारी ई-नीलामी सेवा प्रदाता (https:http://www.mstcecommerce.com/) के अधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क किया जा सकता है। जिसके विवरण ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

11. अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ई-नीलामी निर्धारित कर लेने के पश्चात, केवल सफल संविदाकार को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से हमारे उपर्युक्त सन्दर्भित सेवा प्रदाता द्वारा सूचित किया जायेगा। (उनके द्वारा प्रदत्त/सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत मोबाइल नं./ईमेल पते पर) 12. प्रतिभृति आस्ति आरक्षित मृल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी।

िदिल्ली में देय जमा करना होगा, निर्धारित समय के भीतर उपर्युक्त राशि जमा करने में विफल होने पर, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई दावा नहीं होगा। 14. सफल संविदाकार द्वारा बैंक को बिक्री कंसीडरेशन का भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–1ए के अधीन टीडीएस के अध्यधीन होगा और सफल संविदाकार द्वारा टीडीएस केवल संविदा राशि के शेष 75%/संविदा राशि के पूर्ण जमा के समय ही प्रदान करना होगा।

15. अधिकत प्राधिकारी को स्वीकार्य न हो तो किसी या सभी संविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने या स्थिगत/निरस्त/आस्थिगत/अनिरन्तर करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार है, और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा।

16. सफल संविदाकार के पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण संविदा राशि जमा करने के उपरान्त ही निर्गत किया जायेगा।

17. सम्पत्तियों की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जा रही है।

23. एक प्रतिनिधि नियक्त करना तथा स्वयं सविदा बनाना और नीलामी में भाग लेना बैंक के अधिकार में है।

18. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभृत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर कहे गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

19. सविदा जमा करने से पूर्व आस्तियों तथा विशिष्टि के विषय में निरीक्षण करके स्वयं को सन्तुष्ट करना संविदाकार का उत्तरदायित्व होगा। संविदाकार डीलिंग अधिकारी से उपलब्ध विवरण के अनुसार उसके परामर्श से सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। 20. पंजीकरण प्रभारों, स्टैम्प ड्यूटी, करों आदि सहित सभी विधिक बकायों/अटेंडेंट चार्जेज/अन्य बकायों का वहन क्रेता द्वारा किया जायेगा।

21. अधिकृत प्राधिकारी अथवा बैंक सम्पत्तियों (ई-नीलामी की जाने वाली) के परिप्रेक्ष्य में सरकारी या किसी अन्य के किसी प्रभार, लिएन, ऋणभारों को विधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकायों, बिजली के बकायों आदि सिहत सम्पत्ति पर ऋणभारों से सम्बन्धित अपनी स्वतन्त्र पूछताछ कर लेने का परामर्श दिया जायेगा। 22. संविदाकार को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैक-अप आदि सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इन्टरनेट फेल्योर या तकनीक कारणों या ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारणों/असंगतियों के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

24. चल संपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए, माननीय एनसीएलटी द्वारा नियुक्त परिसमापक की सहमति से इसे संयुक्त रूप से बिक्री पर रखा गया है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://www.ibapi.in, https://eprocure.gov.in/epublish/app,http://www.mstcecommerce.com/, www.pnbindia.in का सन्दर्भ लें।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना दिनांक : 09.02.2022 स्थान : नई दिल्ली

अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत

www.readwhere.com